

उत्तर प्रदेश में डीबीएफओटी (टोल) मार्ग परियोजना में कंपनी के प्रतिस्थापन (सबस्टिट्यूशन) के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

बरेली हाइवेज प्रोजेक्ट लिमिटेड ("कंपनी") ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ("प्राधिकरण") द्वारा डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन एवं स्थानांतरण के आधार पर ("परियोजना") उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 के बरेली-सीतापुर अनुभाग के चार लेन मार्ग के लिए रियायत देने का निर्णय लिया है।

कंपनी में तनाव के समाधान के लिए, भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में ऋणदाताओं के एक संघ ("ऋणदाताओं") ने परियोजना की अवशेष अवधि के लिए कंपनी को प्रतिस्थापित (सबस्टिट्यूट) करने के लिए एक योग्य संस्था की पहचान करने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया आरंभ करने का निर्णय लिया है ("बोली प्रक्रिया")। इस संबंध में, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड ("एसबीआईकैप्स") को बोली प्रक्रिया एवं इसके अतिरिक्त आकस्मिक मामलों हेतु ऋणदाताओं की सहायता करने एवं सलाह देने के लिए नियुक्त किया गया है।

उपरोक्त का पालन करते हुए, ऋणदाताओं की ओर से भारतीय स्टेट बैंक एवं एसबीआईकैप्स द्वारा 21 दिसंबर, 2018 को जारी विज्ञापन के संदर्भ में दिनांक 21 दिसंबर, 2018 ईओआई दस्तावेज ("ईओआई दस्तावेज") के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार बोली प्रक्रिया ("विज्ञापन") में भाग लेने के लिए तकनीकी एवं वित्तीय क्षमता ("इच्छुक पक्षों") रखने वाले इच्छुक निवेशकों/निवेशकों के संघों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति ("ईओआई") आमंत्रित की जाती है।

विज्ञापन तथा ईओआई की बोली प्रक्रिया और आंशिक संशोधन के संबंध में, सभी इच्छुक पक्ष कृपया ध्यान दें कि ईओआई जमा करने की तिथि एवं समय को दिनांक 31 दिसंबर, 2018 को शाम 6:00 बजे (भा.मा.स.) से बढ़ाकर दिनांक 8 जनवरी, 2019 को शाम 6:00 बजे (भा.मा.स.) ("ईओआई की अंतिम तिथि") कर दिया गया है। इच्छुक पक्ष अपनी ईओआई ई-मेल team.bhpl@sbicaps.com के माध्यम से जमा कर सकते हैं। साथ ही, ईओआई की अंतिम तिथि के 2 (दो) कार्य दिवसों के भीतर ईओआई की हार्डकॉपी निम्नलिखित प्रतिलेख के साथ स्पष्ट रूप से चिह्नित मुहरबंद लिफाफे में नीचे लिखे पते पर प्रत्यक्ष रूप से जमा अथवा पोस्ट या कूरियर (इच्छुक पक्षों के जोखिम एवं लागत पर) द्वारा भेज सकते हैं।

"बरेली हाइवेज प्रोजेक्ट लिमिटेड के प्रतिस्थापन के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति"

सेवा में: सुश्री राजराजेश्वरी मिश्रा, उपाध्यक्ष, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, 202, मेकर टॉवर ई, कफ परेड, मुंबई-400 005
परियोजना के संक्षिप्त विवरण, संशोधित ईओआई प्रारूप एवं किसी अन्य जानकारी तथा अद्यतन के लिए इच्छुक पक्ष भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट (<https://www.sbi.co.in/portal/web/home/auction-notices>) एवं एसबीआईकैप्स की वेबसाइट (www.sbicaps.com) देख सकते हैं।

किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया निम्नलिखित से संपर्क करें:

संपर्क व्यक्ति	टेलीफोन नंबर	ई-मेल आईडी
सुश्री राजराजेश्वरी मिश्रा (उपाध्यक्ष, एसबीआईकैप्स)	+91 22 22 17 8313	team.bhpl@sbicaps.com
श्री अरुण जैन (सहायक महाप्रबंधक, एसबीआई)	+91 22 6824 7653	agm1infra2.sarg@sbi.co.in



नोट: इस विज्ञापन को एसबीआईकैप्स या ऋणदाताओं के हिस्से के रूप में किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं मानी जाएगी और ना ही समझी जाएगी। एसबीआईकैप्स एवं ऋणदाता बिना कोई कारण बताए और बिना किसी देयता के बोली प्रक्रिया या इसके किसी भी भाग को रद्द/निलंबित करने, प्रक्रिया के किसी भी चरण पर किसी/सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने और/या प्रक्रिया अथवा इसके किसी भी भाग को संशोधित करने या किसी भी शर्तों को बदलने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। यह विज्ञापन एक प्रस्ताव दस्तावेज नहीं है एवं बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट अस्वीकरण और सीमाओं के अधीन होगा।

Hindi 11(W) x 14(H) cm